



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

---

सं० 106] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 1, 1982/चैत्र 11, 1904  
No. 106] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 1, 1982/CHAITRA 11, 1904

---

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

---

चित्त संचालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 1982

सं. 100/82-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 289(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962  
(1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग  
करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक

है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 201-सीमाशुल्क तारीख 14 अक्टूबर, 1980 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में—

- (1) उक्त अधिसूचना के प्रारम्भिक भाग में “14 अक्टूबर, 1980” अंकों और शब्द के स्थान पर, “14 अक्टूबर, 1980 या भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की लोक सूचना संख्यांक 53-आई टी सी (पी एन)/81, तारीख 25 अक्टूबर, 1981 और 66-आई टी सी (पी एन)/81, तारीख 23 दिसम्बर, 1981 द्वारा विदेश में प्रदर्शनियों में विक्रय के लिए स्वर्ण आभूषणों और वस्तुओं के निर्यात की स्कीम” शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ;
- (2) शर्त (2) में, “आयातकर्ता या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि” शब्दों के पूर्व “विदेशीकृता द्वारा प्रदत्त स्वर्ण के बदले स्वर्ण-आभूषणों के निर्यात की स्कीम की वशा में” शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

[फा सं. 370/77/80-सीमाशुल्क-1]

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

### NOTIFICATIONS

New Delhi, the 1st April, 1982

NO. 100/82-CUSTOMS

**G.S.R. 289(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, No. 201-Customs, dated the 14th October, 1980, namely :—

In the said notification—

- (i) In the opening portion, for the figures, letters and word “14th October, 1980” the words, figures, letters and brackets “14th October, 1980 or the Scheme for export of gold ornaments and articles for sale at exhibitions abroad notified by the Government of India in the Ministry of Commerce in the Public Notice Nos. 52-ITC(PN)/81 dated 26th October, 1981 and 66-ITC(PN)/81 dated 23rd December, 1981” shall be substituted ;
- (ii) In condition (ii), before the words “the importer or his authorised representative”, the words “in the case of the Scheme for export of Gold Jewellery against gold supplied by the foreign buyer,” shall be inserted.

[F. No. 370/77/80-Cus. II]

## सं. 101/82-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 290(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 4 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं. 352-सीमा-शुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976 को अधिक्रान्त करते हुए, नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट देशों को उक्त धारा के प्रयोजनार्थ “अभिमानि क्षेत्र” घोषित करती है।

## सारणी

क्रम सं.	देश
(1)	(2)
1.	मारीशस
2.	सेशल्स
3.	टोंगा

[फा. सं. 355/50/82-सीमा-शुल्क-1]

के. चन्द्रमौलि, अवर सचिव

## NO. 101/82-CUSTOMS

G.S.R. 290(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 4 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) and in supersession of the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking No. 352-Customs dated the 2nd August, 1976, the Central Government hereby declares the countries specified in the Table below to be “preferential areas” for the purposes of the said section.

## TABLE

S. No.	Countries
1	2
1.	Mauritius
2.	Seychelles
3.	Tonga

[F. No. 355/50/82-Cus. I]

K. CHANDRAMOULI, Under Secy.

